



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

No. 250]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2017

**सा.का.नि. 314(अ).**—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे।
- भारतीय तार नियम, 1951 में नियम 525 के उप-नियम (2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है),—
  - खंड (v) में, मद संख्या (छ) के पश्चात् निम्नलिखित मद को शामिल किया जाएगा। अर्थात्—

"(ज) भारत नेट फाइबर के उपयोग द्वारा 5,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई चौपालों की स्थापना हेतु पूंजीगत संबंधी व्यय जो सीएससी ई-गवर्नेन्स भारतीय सेवा लिमिटेड द्वारा वहन किया जा रहा है, जिसे सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
  - उक्त नियमों के नियम 526 में शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों " खंड (v) की मद (क), मद (ख), मद (ग), मद (घ), मद (ङ), मद (च) और मद (छ) " के स्थान पर " खंड (v) की मद (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) और (ज) " शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर रखा जाएगा।

[फा. सं. 30-180/2016-बीबी-यूएसओएफ]

अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

**टिप्पणी:** मुख्य नियम डाक एवं तार पुस्तिका खंड I, विधायी अधिनियमन, भाग-II, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे:—

1.	सा.का.नि. 190, दिनांक 18 फरवरी, 1984
2.	सा.का.नि. 386, दिनांक 22 मई, 1984
3.	सा.का.नि. 387(अ) दिनांक 22 मई, 1984
4.	सा.का.नि. 679, दिनांक 30 जून, 1984
5.	सा.का.नि. 428, दिनांक 27.4.1985
6.	सा.का.नि. 729, दिनांक 03 अगस्त, 1985
7.	सा.का.नि. 982, दिनांक 19 अक्टूबर, 1986
8.	सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 27 मार्च, 1986
9.	सा.का.नि. 314, दिनांक 26 अप्रैल, 1986
10.	सा.का.नि. 566, दिनांक 26 जुलाई, 1986
11.	सा.का.नि. 953(अ) दिनांक 23 जुलाई, 1986
12.	सा.का.नि. 1121(अ) दिनांक 1 अक्टूबर, 1986
13.	सा.का.नि. 1167(अ) दिनांक 28 अक्टूबर, 1986
14.	सा.का.नि. 1237(अ) दिनांक 28 नवम्बर, 1986
15.	सा.का.नि. 49, दिनांक 17 जनवरी, 1987
16.	सा.का.नि. 112(अ) दिनांक 25 फरवरी, 1987
17.	सा.का.नि. 377(अ) दिनांक 09 अप्रैल, 1987
18.	सा.का.नि. 674(अ) दिनांक 27 जुलाई, 1987
19.	सा.का.नि. 719(अ) दिनांक 18 अगस्त, 1987
20.	सा.का.नि. 837(अ) दिनांक 5 अक्टूबर, 1987
21.	सा.का.नि. 989(अ) दिनांक 17 दिसम्बर, 1987
22.	सा.का.नि. 337(अ) दिनांक 11 मार्च, 1988
23.	सा.का.नि. 361(अ) दिनांक 20 मार्च, 1988
24.	सा.का.नि. 626(अ) दिनांक 17 मई, 1988
25.	सा.का.नि. 660(अ) दिनांक 31 मई, 1988
26.	सा.का.नि. 693(अ) दिनांक 10 जून, 1988
27.	सा.का.नि. 734(अ) दिनांक 24 जून, 1988
28.	सा.का.नि. 606, दिनांक 14 जुलाई, 1988
29.	सा.का.नि. 812(अ) दिनांक 26 जुलाई, 1988
30.	सा.का.नि. 888(अ) दिनांक 01 सितम्बर, 1988
31.	सा.का.नि. 907(अ) दिनांक 07 सितम्बर, 1988

32.	सा.का.नि. 916(अ) दिनांक 09 सितम्बर, 1988
33.	सा.का.नि. 1054, दिनांक 2 नवम्बर, 1988
34.	सा.का.नि. 179, दिनांक 18 मार्च, 1989
35.	सा.का.नि. 358(अ) दिनांक 15 मार्च, 1989
36.	सा.का.नि. 622(अ) दिनांक 15 जून, 1989
37.	सा.का.नि. 865(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 1989
38.	सा.का.नि. 413(अ) दिनांक 29 मार्च, 1990
39.	सा.का.नि. 574, (अ) दिनांक 15 जून, 1990
40.	सा.का.नि. 933(अ) दिनांक 03 दिसम्बर, 1990
41.	सा.का.नि. 985(अ) दिनांक 20 दिसम्बर, 1990
42.	सा.का.नि. 74(अ) दिनांक 18 जनवरी, 1991
43.	सा.का.नि. 237(अ) दिनांक 25 अप्रैल, 1991
44.	सा.का.नि. 251(अ) दिनांक 02 मई, 1991
45.	सा.का.नि. 543(अ) दिनांक 21 मई, 1992
46.	सा.का.नि. 560(अ) दिनांक 26 मई, 1992
47.	सा.का.नि. 587(अ) दिनांक 10 जून, 1992
48.	सा.का.नि. 730(अ) दिनांक 19 अगस्त, 1992
49.	सा.का.नि. 830(अ) दिनांक 28 अक्टूबर, 1992
50.	सा.का.नि. 62(अ) दिनांक 11 फरवरी, 1993
51.	सा.का.नि. 80(अ) दिनांक 06 फरवरी, 1993
52.	सा.का.नि. 384(अ) दिनांक 27 अप्रैल, 1993
53.	सा.का.नि. 387(अ) दिनांक 28 अप्रैल, 1993
54.	सा.का.नि. 220(अ) दिनांक 26 मार्च, 2004
55.	सा.का.नि. 713(अ) दिनांक 17 नवम्बर, 2006
56.	सा.का.नि. 193(अ) दिनांक 01 मार्च, 2007
57.	सा.का.नि. 547(अ) दिनांक 18 जुलाई, 2008
58.	सा.का.नि. 49(अ) दिनांक 27 जनवरी, 2010
59.	सा.का.नि. 279(अ) दिनांक 31 मार्च, 2010
60.	सा.का.नि. 256(अ) दिनांक 27 मार्च, 2012
61.	सा.का.नि. 412(अ) दिनांक 29 मई, 2012
62.	सा.का.नि. 368(अ) दिनांक 07 जून, 2013

63.	सा.का.नि. 506(अ) दिनांक 24 जुलाई, 2013
64.	सा.का.नि. 18, दिनांक 28 जनवरी, 2014
65.	सा.का.नि. 912(अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 2015

66	सा.का.नि. 653(अ) दिनांक 25 अगस्त.2015
67	सा.का.नि. 241, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

### (Department of Telecommunications)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2017

**G.S.R. 314(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 525, in sub-rule (2), (herein after referred to as the said rules)—
  - (i) in clause (v), after item (g), the following items shall be inserted, namely:—
 

“(h) For setting up of Wi-Fi Choupals at five thousand Gram Panchayats using BharatNet Fibre, Capital Expenditure incurred by CSC e-Governance Services India Limited shall be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF).
  - (ii) In the said rules, in rule 526, for the words, brackets and letters " item (a), item (b), item (c), item (d), item (e), item (f) and item (g) of clause (v)”, the words brackets and letters "items (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) of clause (v)" shall be substituted.

[F. No. 30-180/2016-BB-USOF]

AMIT YADAV, Jt. Secy. (Admin),

**Note:** The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended vide notification numbers –

- |  |   |
|--|---|
| 1. G.S.R. 190, dated the 18 <sup>th</sup> February, 1984;      | 15. G.S.R. 49, dated the 17 <sup>th</sup> January, 1987;      |
| 2. G.S.R. 386, dated the 22 <sup>nd</sup> May, 1984;           | 16. G.S.R. 112(E), dated the 25 <sup>th</sup> February, 1987; |
| 3. G.S.R. 387(E), dated the 22 <sup>nd</sup> May, 1984;        | 17. G.S.R. 377(E), dated the 9 <sup>th</sup> April, 1987;     |
| 4. G.S.R. 679, dated the 30 <sup>th</sup> June, 1984;          | 18. G.S.R. 674(E), dated the 27 <sup>th</sup> July, 1987;     |
| 5. G.S.R. 428, dated the 27 <sup>th</sup> April, 1985;         | 19. G.S.R. 719(E), dated the 18 <sup>th</sup> August, 1987;   |
| 6. G.S.R. 729, dated the 3 <sup>rd</sup> August, 1985;         | 20. G.S.R. 837(E), dated the 5 <sup>th</sup> October, 1987;   |
| 7. G.S.R. 982, dated the 19 <sup>th</sup> October, 1986;       | 21. G.S.R. 989(E), dated the 17 <sup>th</sup> December, 1987; |
| 8. G.S.R. 553(E), dated the 27 <sup>th</sup> March, 1986;      | 22. G.S.R. 337(E), dated the 11 <sup>th</sup> March, 1988;    |
| 9. G.S.R. 314, dated the 26 <sup>th</sup> April, 1986;         | 23. G.S.R. 361(E), dated the 21 <sup>st</sup> March, 1988;    |
| 10. G.S.R. 566, dated the 26 <sup>th</sup> July, 1986;         | 24. G.S.R. 626(E), dated the 17 <sup>th</sup> May, 1988;      |
| 11. G.S.R. 953(E), dated the 23 <sup>rd</sup> July, 1986;      | 25. G.S.R. 660(E), dated the 31 <sup>st</sup> May, 1988;      |
| 12. G.S.R. 1121(E), dated the 1 <sup>st</sup> October, 1986;   | 26. G.S.R. 693(E), dated the 10 <sup>th</sup> June, 1988;     |
| 13. G.S.R. 1167(E), dated the 28 <sup>th</sup> October, 1986;  | 27. G.S.R. 734(E), dated the 24 <sup>th</sup> June, 1988;     |
| 14. G.S.R. 1237(E), dated the 28 <sup>th</sup> November, 1986; | 28. G.S.R. 606, dated the 14 <sup>th</sup> July, 1988;        |

29. G.S.R. 812(E), dated the 26<sup>th</sup> July, 1988;
30. G.S.R. 888(E), dated the 1<sup>st</sup> September, 1988;
31. G.S.R. 907(E), dated the 7<sup>th</sup> September, 1988;
32. G.S.R. 916(E), dated the 9<sup>th</sup> September, 1988;
33. G.S.R. 1054, dated the 2<sup>nd</sup> November, 1988;
34. G.S.R. 179, dated the 18<sup>th</sup> March, 1989;
35. G.S.R. 358(E), dated the 15<sup>th</sup> March, 1989;
36. G.S.R. 622(E), dated the 15<sup>th</sup> June, 1989;
37. G.S.R. 865, dated the 29<sup>th</sup> September, 1989;
38. G.S.R. 413(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 1990;
39. G.S.R. 574(E), dated the 15<sup>th</sup> June, 1990;
40. G.S.R. 933(E), dated the 3<sup>rd</sup> December, 1990;
41. G.S.R. 985(E), dated the 20<sup>th</sup> December, 1990;
42. G.S.R. 74(E), dated the 18<sup>th</sup> January, 1991;
43. G.S.R. 237(E), dated the 25<sup>th</sup> April, 1991;
44. G.S.R. 251(E), dated the 2<sup>nd</sup> May, 1991;
45. G.S.R. 543(E), dated the 21<sup>st</sup> May, 1992;
46. G.S.R. 560(E), dated the 26<sup>th</sup> May, 1992;
47. G.S.R. 587(E), dated the 10<sup>th</sup> June, 1992;
48. G.S.R. 730(E), dated the 19<sup>th</sup> August, 1992;
49. G.S.R. 830(E), dated the 28<sup>th</sup> October, 1992;
50. G.S.R. 62(E), dated the 11<sup>th</sup> February, 1993;
51. G.S.R. 80, dated the 6<sup>th</sup> February, 1993;
52. G.S.R. 384(E), dated the 27<sup>th</sup> April, 1993;
53. G.S.R. 387(E), dated the 28<sup>th</sup> April, 1993;
54. G.S.R. 220(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 2004;
55. G.S.R. 713(E), dated the 17<sup>th</sup> November, 2006;
56. G.S.R. 193(E), dated the 01<sup>st</sup> March, 2007;
57. G.S.R. 547(E), dated the 18<sup>th</sup> July, 2008;
58. G.S.R. 49(E), dated the 27 January, 2010;
59. G.S.R. 279(E), dated the 31<sup>st</sup> March, 2010;
60. G.S.R. 256(E), dated the 27<sup>th</sup> March, 2012;
61. G.S.R. 412(E), dated the 29<sup>th</sup> May, 2012;
62. G.S.R. 368(E) dated the 07<sup>th</sup> June, 2013;
63. G.S.R. 506(E) dated the 24<sup>th</sup> July, 2013;
64. G.S.R. 18 dated the 28<sup>th</sup> January, 2014;
65. G.S.R. 912(E) dated the 23<sup>rd</sup> December, 2014;
66. G.S.R. 653(E) dated the 25<sup>th</sup> August, 2015; and
67. G.S.R. 241 dated the 10<sup>th</sup> December, 2015;